१ चंद्र ग्पलो चन भुजपत्रसचै ग्पल चद्नकुंकु मन भुजपत्र
य सपत्नस्यायचन धानै मिसा सचैया वकोला सत्रुयु सांवलो
पा तरक्षा — — — — —

789

ग्र

न स्मा कछुन्ड्स्मले चन्द्रनग्मा
लस चेया कोशायावनयलें
कसकलंधवकुवयके
वनबालीरुयनानरुट

ग्मले चंद्र नभुजपत्रस चेया
कोशापावनयरगन भाजिवा
याभिसयानरक्षा

ॐ क्रां कर पलैं च पून नाम भुज थे जनुन कों बाया। लय भन ह्रं
पत्रैं स चैं को बायलेक या केरा दां गि भि सां जि भैया! भय भदु
जा या कैमा नेद है

हं	हं	हं	हं	हं	हं	हं	हं
सं	सं	सं	सं	सं	सं	सं	सं
बं	बं	बं	बं	बं	बं	बं	बं
सं	सं	सं	सं	सं	सं	सं	सं
वं	वं	वं	वं	वं	वं	वं	वं
लं	लं	लं	लं	लं	लं	लं	लं
नं	नं	नं	नं	नं	नं	नं	नं
मं	मं	मं	मं	मं	मं	मं	मं

२	२२	२५	२३
३	२८	३	८
१२	[illegible]	[illegible]	७

पि थ गा सो ह्र फ या मो ल वि
गि ध थे वृ मे य भ्रू उ पं त्र स क्षो
ब्रु य कों ह्र या य भि सा नि
ल सै वि भे म फ ई व

कृ का । कर्ण

३३	३४७	३३१
३३८	३३७	७३१
३३४	३३७	७
८	५	१२

दि

थे ॐ नु आ ई स्त्र यारथू
क्री ये य आ सि ग ध्व न मु हा
ते मा हां ग्या ल न द्यो यु नस
त य मु ल पि सा पया वि का भि
या भ य म दु

आत्र वार ष कु छु कुन म धि स
ये य छे ल न वू ला व भा ति न के
भि सा या ना म न ल प पि रि जु ई व
काय या त अंग वा र ष कु ये य



दुधारे स्या नातेन षोलास
चोयस कु या नामं तयम सां
नस थु ना व तथ या मृष्ठि
नियरि कार नासता हि

कुंकु मरपले चानकसत्तुरि श्री
बंदु नष्ठ अपत्र स चो या व
धुं छु स थु ना व तय स कुरन
छुं न या नाग मरपेल के



ॐ कं कस्तुरिपेत चन
हिंनह भुजपन्तुस को
बाय मोचा वृ ई

৭৪৭
ASHA ARCHIVES

यकसथिसउअकुं सउअकु ८१।
वयासथिसउआकुं साथ्यस ८२॥
त्रिसथिसउअकुं योन्याउंगा ८३॥
वीसथिसउआकुं कुमि —— ८४
ययसथिसउआकुं सउअकु ८५।
कुसथिसउअकुं सा थ्य वया ८६॥
सथसथिसउअकुं पउंचात्रि ८७॥
कुपसथिसउआकुं पवासि ८८
उनांहकुसउअकुं सउअकु ८९।
सत्रिसउआकुं साध्यसना ९०॥
यकहत्रसअकुं पउंन ९१॥
वहत्रसआकुं नव ९२
त्रिहत्रसअकुं सउअ ९३।
वीहत्रसअकुं साध्य —— ९४॥
यवहत्रसआकुं पउंन्या ९५॥
कुहत्रसअकुं पयानथ्य ९६
सत्रहत्रसअकुं सउअ ९७।
सुपहत्रसअकुं साध्य ९८॥
उनागसिसअकुं पउंआ ९९॥
कुसिसअकुं सय १००

यकासिसअकुं सउअ १०१।
वयासिसअकुं साध्य १०२॥
त्रियासिसअकुं योन्या १०३॥
वीलासिसअकुं यकस १०४
ययासिसआकुं सउअ १०५।
कुयासिसअकुं साध्य १०७॥
सनासिसअकुं योन्या १०९॥
कुथासिसआकुं सय ११०
अनानवीसउआकुं सउअ १११।
नवासउआकुं यकसहा ११२॥
कानवासउआकुं साध्य ११३॥
वयानवासअकुं सय ११४
त्रियानवासआकुं सय ११६।
वीगानवासआकुं सा ११७॥
यवानवासअकुं यो ११९॥
कुयानवासआकुं सय १२०
सनानवासअकुं सउआ १२१।
कुथानवासउआकुं साध्य १२२॥
उंनासयसउअकुं योन १२३॥
[illegible]यसउअकुंय कसयसउआ १२[illegible]

<यका कुसमअअ कु सअ २७।
<वा कुसमअअ कु साध्य नता २८॥
<नै कुसमअ अ कु पौन्य नथा २९॥
<वौविसमअअ कु ३०
<यविसमअअ कु सअ ३१।
<छविसमअअ कु साध्य नति ३२॥
<सुता कुसमअअ कु यउन्य ३३॥
<शुथा कु सअअ कु ययति ३४
<उनंतिसम अअ कु सअ ३५।
<तिसम अअ कु साध्य सतति ३७॥
<यकातिसम अअ कु यउन्य ३९॥
<वतिसम अअ कु वालिस ४०
<कतिसम अअ कु सअयक ४१।
<वौतिसम अअ कु साध्य ४२॥
<ययतिसम अअ कु पौन्य ४३॥
<छतिसम अअ कु ययती ४४
<गनतिसम अअ कु सअअ ४५।
<अ०तिसअअ कु साध्य ४७॥
<उनंवासम अअ कु यउन्य ४९॥
<वालिसम अअ कु यवा ५०

यक वालिसम अअ यिसअ ५१।
वया लिसम अअ यिसाध्य ५२॥
त्रिनालिसम अअ यियौन ५३॥
च अ लिसम अअ यियिचयं ५४
यतालिसम अअ यिसअ ५५।
छयालिसम अअ कु साध्य ५७॥
सतवालिसम अअ कु पौ ५९॥
अथवालिसम अअ कु सा ६०
उनंचालिसम अअ कु सअ ६१।
पचासम अअ कु साध्य ६२॥
एकाउनसम अअ कु पौन्य ६३॥
वाउनसम अअ कु ययसपि ६४
त्रियनसम अअ कु सअअ ६५।
चउनसम अअ कु साध्य ६७॥
पचपंनसम अअ कु पौन ६९॥
छपंनसम अअ कु ययति ७०
सतावंनसम अअ कु सअ ७१।
अठाउंनसम अअ कु साध्य ७२॥
उनंसठि सम अअ कु पौन्य ७३॥
साठि सम अअ कु पय हत्र ७४

नउ नउंय कासि बा ङुइ ८१
नअौ दसा नर्व्ये गुय ९०

दस यकां दस सिगु १०
दस दुगनां बिसनि २०
दस तिनिं तिस गुय ३०
दस चालं चालिस धिय ४०
दस पर्चं पचाङ्व्य ५०
दस छुगं साथि षय ६०
दस साधं साधिकप ७०
दस आथं अस्तिवय ८०
दस नउं नवेगुय ९०
दस दसां सयसङ्घ १००

यक स अ हुङ स अङ कु १।
दु हुङ स अ हुङ भू खा हुङ २॥
तिन स अ हुङ थो न्थे चात ३॥।
चाल स अ हुङ पाव ५
याच स अ हुङ स अङ्क ६।
छ स अ हुङ साध्य सागात ७॥
साथ स अ हुङ प ग न्य उ ८॥।
आथ स अ हुङ दग १०
नउ स अ हुङ स अ य काव ११।
दस अ हुङ साध्य वाहा १२॥
यको ह्म स अ हुङ प उन्ने चाधा १३॥।
बाह्न स अ हुङ पंध्र १५
तेह्न स अ हुङ स अङ्क ह्न १६।
चोध स अ हुङ साध्य सत्र १७॥
पंध्र स अ हुङ थो न्थे उन्नि १८॥।
सोह्र स अ हुङ बिस २०
सत्र स अ हुङ स अङ एका हुङ २१।
अथ्य र स अ हुङ साध्य बा हुङ २२॥
उन्निस स अ हुङ प उन्न्य चौबि २३॥।
बिस स अ हुङ पचि २५

१ हुअयकां हुअथु ३
१ हुअदुगनांवाङ्कसनि १२
१ हुअनिनिंग्रुथनसथा १८
१ हुअवालांश्चावसनिपि २४
१ हुअयवनिसगुय ३०
१ हुअहु कांहुनि समयय ३६
१ हुअसाथ वयालिसपि ४२
१ हुअ गाथंग्रुथ वास ४८
१ हुअनअं वोयंङ्कहयपि ५४
१ हुअदसांसाथिथुय ६०

---

१ साथयकांसाथङ्कय १
१ साथदुगनांचोथसपि १४
१ साथनिनिंयकाङुंस २१
१ साथ वालं[illegible]गथा २८
१ साथयवंयुयनिस ३५
१ साथ हुकां वयालिस ४२
१ साथसाथ उनवासि ४९
१ साथ गाथं हुयंङ्कहयथ ५६

१ साथनअं त्रिसथि ६३
१ साथदसांहदङ्कय ७०

---

१ गाथयकांगाथथा ८
१ गाथदुगनांथङ्क १६
१ गाथनिनिंचोविस २४
१ गाथवालवनिस ३२
१ गाथयवंचालिस ४०
१ गाथहुअंग्रुथवानि ४८
१ गाथसाथहुपनहथ ५६
१ गाथगाथंचोसाथि ६४
१ गाथनअंवहदङ्कनि ७२
१ गाथदसांगासिवय ८०

---

१ नअ १ कानअगु ९
१ नअदुगनांग्रुथनसथा १८
१ नअनिनिंसतांइंसनिङ्क २७
१ नअवालंहुतिसगुथ ३६
१ नअ[illegible]यवंयनालिस ४५
१ नअहुकां चोयंङ्कहथि ५४
१ नअसाथंत्रिसथिगुसा ६३
१ नअगाथं वहदङ्कनासि ७२

१ दयश्राथंमाधसंख १३
१ दयन उंश्रथानसंख्या १६
१ दयदर्शंविस २०

१ तिनियकोंतिक्ष ३
१ तिनिदुगनांछगाष ७
१ तितितियांनअगु [illegible]
१ तिनिवालंवाक्रुसैन [illegible]
१ तिनियवंपधुसंक्षा १५
१ तिनिछकोंगधान १६
१ तिनिसाथंयकोंकु २१
१ तिनिश्राथंवोविस २४
१ तिनिनश्रांमनांकु २७
१ तिनिदसांतिसगुय ३०

१ वालयकावालयि ४
१ वालदुगनांश्राधवा ८
१ वालतियांवाक्रुसति १२

१ वालवालंसीक्रुसव १६
१ वालयवोंविसनिय २०
१ वालछकोंगविस २४
१ वालसाथंगधक्रु २८
१ वालगाथंवनिसस्क ३२
१ वालनश्रांछनिसस्व ३६
१ वालदसांवालिसपिगु ४०

१ याचंकांपावाक्षा ५
१ याचदुगनांदस १०
१ याचतियांपंधुसक्षा १५
१ याचवालंविशनिय २०
१ याचयचंयरिसनिक्षा २५
१ याचछअंनिसगुय ३०
१ याचसाथंयययतिस ३५
१ याचश्राथंवालिस ४०
१ याचनअंयययतिति ४५
१ याचदसांयवास ५०

नम्व श्रीगतिपु

यक यकेयफा

यकयकेयफा ४

यकदू

नम वा गोतिपु

॥ ॐ वागिन्ह्यानिम्ह ॥४॥

१ यकयकयकछि १

२ यकदुय दुयनसि २

३ यकतिनितिनिसा ३

४ यकप्यलवाल्व वालपि ४

५ यकंपाचं याचद ५

६ यकछ्वगःछ्वगःषु ६

७ यकसाथंसाथ क्या ७

८ यकश्याथं श्या च्या ८

९ यकनअं नगमु ९

१० यकदसां दससिगु १०

२ दुयकोदुयनसि २

२ दुयदुयनीवालपि ४

२ दुयमिनि छ्वगःषु ६

२ दुयपालं साथचा ८

२ दुयपाकुं दससिगु १०

२ दुयछ्वगःबाकुमंसि १२

२ दुयसाथं वाथसिपि १४